



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, अप्रैल 8—अप्रैल 14, 2018, शनिवार/चैत्र 18—चैत्र 24, 1940

No. 6] NEW DELHI, APRIL 8—APRIL 14, 2018, SATURDAY/CHAITRA 18—CHAITRA 24, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2018

का.नि.आ.18—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, सांख्यिकीय अधिकारी, भर्ती नियम, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधीन स्थापनों में सांख्यिकीय अधिकारी के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधीन स्थापन, सांख्यिकीय अधिकारी भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता—वह व्यक्ति**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सांख्यिकीय अधिकारी	* 01 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर - 7 (44900-142400 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नति, द्वारा	संयुक्त पद्धति { प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नति } द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या (कानूनी) या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या अर्ध सरकारी संगठनों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण करते हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की है।

	<p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200- 92300 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष की सेवा की है, और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव धारण करते हों :-</p> <p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित और सांख्यिकी मुख्य विषय के साथ स्नातक (कला) या स्नातक (विज्ञान)।</p> <p>(ii) सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और निर्वचन का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की सांख्यिकी/संक्रिया अनुसंधान या गणित या अर्थशास्त्र या वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) में मास्टर उपाधि या समतुल्य</p> <p>टिप्पण 1 : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 के साथ, बाह्य आवेदकों के साथ मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधीन संबन्धित स्थापन के ऐसे विभागीय सांख्यिकीय सहायक के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिसने उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा की है तथा जो शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित अनुभव रखता हो, को प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन के लिए विचार किया जाएगा यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर - बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति इस प्रकार होगी :-</p> <p>1. प्रधान निदेशक (कार्मिक) मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा मंत्रालय — अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक (कार्मिक) मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा मंत्रालय — सदस्य</p> <p>3. अवर सचिव रक्षा मंत्रालय — सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 15814/भ. नि./ सांख्यिकीय अधिकारी /आई डी एस/कार्मिक/60/र.(नि.)/2018]

बिश्वजीत गुहा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCENew Delhi, the 5th March, 2018

S.R.O. 18.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the National Defence Academy (Statistical Officer) Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Statistical Officer, in the Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff, Statistical Officer, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** —The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.** .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualification.** —No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Statistical Officer	*01 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs. 44900-142400)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

(10)

By Composite Method [Deputation (Including Short Term Contract) plus Promotion].

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.

(11)

Composite Method [Deputation (Including Short Term Contract) or Promotion] :

Officers under the Central Government or State Governments or statutory or autonomous bodies or public sector undertakings or Universities or semi Government or recognised research institutes :-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 (Rs. 35400 - 112400) of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with eleven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs. 29200 - 92300) of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualification and experience :-

ESSENTIAL :

- (i) Bachelor of Arts or Bachelor of Science with Mathematics and statistics as main subject from a recognised University.
- (ii) Three years experience of collection, compilation, analysis and interpretation of statistical data.

DESIRABLE :

Master's degree in statistics or operations research or mathematics or economics or commerce (with statistics) from a recognised University.

Note 1 : The departmental statistical assistant of the concerned establishment under Headquarters Integrated Defence Staff in the level-5 of pay matrix with eleven years regular service in the grade and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is to be considered along with the outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.

Note 2 : Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> Principal Director (Personnel), Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence - Chairman Director (Personnel), Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence - Member Under Secretary, Ministry of Defence - Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2018

का.नि.आ. 19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2013 में,-

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, को इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भों (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा”

(ii) अनुसूची में,-

(क) स्तम्भ (4) में, स्तम्भशीर्ष और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भशीर्ष और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 7
(44900-142400 रु.)”;

(ख) स्तम्भ (11) में, “ग्रेड वेतन 4200 रु. सहित वेतन बैंड 9300-34800 रु.” के शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रु.)” शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठक को दोनों स्थानों पर अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ग) उप-शीर्ष ‘प्रोन्नति’ के अधीन टिप्पण-3 का लोप किया जाएगा।

(घ) उप-शीर्ष ‘प्रतिनियुक्ति’ के अधीन टिप्पण-4 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 9(5)/सी/2017]

आर.के. कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में का.नि.आ. सं. 17 तारीख 24 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(FINANCE DIVISION)New Delhi, the 3rd April, 2018

S.R.O. 19.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Private Secretary) Recruitment Rules, 2013 namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Private Secretary) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Private Secretary) Recruitment Rules, 2013,-

(i) For rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

“2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rule”.

(ii) in the Schedule:-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“ Level in Pay Matrix
(4)
Level 7 (Rs. 44900-142400)”;

(b) in column (11), for the words and figures “the pay band of Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200”, the words, figures and brackets “level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix” shall be substituted at both places;

(c) under sub-heading ‘Promotion’ Note 3 shall be omitted;

(d) under sub-heading ‘ Deputation’ Note 4 shall be omitted.

[F. No. 9(5)/C/2017]

R. K. KARNA, Addl. Financial Advisor and Jt. Secy.

Note : The principal rule were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4, vide S.R.O. 17, dated the 24th February, 2014.

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2018

का.नि.आ. 20.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ निजी सचिव) भर्ती नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ निजी सचिव) भर्ती नियम, 2007 (इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा जाए) में, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, को इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भों (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा”

3. मूल नियमों में, अनुसूची में,-

(क) स्तम्भ (4) में, उससे संबंधित स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभशीर्ष और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 8
(47600 रु.)”;

(ख) स्तम्भ (11) में,

(i) शीर्ष “प्रोन्नति” के अधीन, --

(क) “वेतन बैंड-2 में 4600 रु. ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रु. वेतन मात्र” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900 रु.)”;

(ख) टिप्पण-2 का लोप किया जाएगा।

(ii) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अंतर्गत,--

(क) प्रविष्टि “वेतन बैंड-2 में श्रेणी वेतन 4600 रु. सहित वेतनमान 9300-34800 रु.” के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900 रु.)”;

(ख) टिप्पण-3 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 9(7)/सी/2017]

आर. के. कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 14 सितम्बर, 2007 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में का.नि.आ. सं. 53 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। पश्चात्तवर्ती संशोधन का.नि.आ. 5, तारीख 8 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित किया गया।

New Delhi, the 3rd April, 2018

S.R.O. 20.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Accounts Department (Senior Private Secretary) Recruitment Rules, 2007, namely :-

1. (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Senior Private Secretary) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Accounts Department (Senior Private Secretary) Recruitment Rules, 2007 (herein after may be called as principal rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

“2. Number of posts, classification and level in Pay Matrix.—The number of said post, its classification and the level in the Pay Matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules”.

3. In the principal rules, in the Schedule,—

- (a) In column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

“ Level in Pay Matrix
(4)
Level 8 (Rs. 47600)”;

- (b) In column (11),

(i) under the heading "Promotion",---

(A) for the entry "in the Pay Scale of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs.4600 in Pay Band-2", the following entry shall be substituted, namely :-

“Level 7 in Pay Matrix (Rs. 44900)” ;

(B) Note 2 shall be omitted;

(ii) under the heading "Deputation",--

(A) for the entry "in the scale of pay of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs.4600 in Pay Band-2", the following entry shall be substituted, namely :-

“Level 7 in Pay Matrix (Rs. 44900)”;

(B) Note 3 shall be omitted;

[F. No. 9(7)/C/2017]

R. K. KARNA, Addl. Financial Advisor and Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette on India, Part-II, Section 4, vide SRO.53, dated 14th September, 2007 was subsequently amended vide S.R.O. 5, dated the 8th December, 2012.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

[गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना)]

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2018

का.नि.आ. 21.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) समूह 'ग' पद (डेवलपर प्रिंटर, फोटोग्राफर श्रेणी-I और श्रेणी-II, फैरो प्रिंटर और कापी कैट आपरेटर) भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) में डेवलपर प्रिंटर, फोटोग्राफर श्रेणी II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना), (डेवलपर प्रिंटर और फोटोग्राफर श्रेणी – II) पद 'ग' भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1. डेवलपर प्रिंटर	02*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसूचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(4)	(5)	(6)	(7)
स्तर 4 (25500 – 81,100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : ऐसे फोटोग्राफर श्रेणी II जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह ग विभागीय पुष्टि / प्रोन्नति समिति (पुष्टि / प्रोन्नति / परीवीक्षा से हटाने के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।
<ol style="list-style-type: none"> निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) - अध्यक्ष उप निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (युद्धपोत परियोजना) - सदस्य - I उप निदेशक (कार्मिक), गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) - सदस्य II अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से सहवर्द्ध सदस्य अपेक्षानुसार 	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. फोटोग्राफर श्रेणी - II	03*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 2 (19900-63200 रु.)

(5)	(6)
लागू नहीं होता	<p>18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के</p>

	लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य तथा फोटोग्राफी में दो वर्ष का अनुभव	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह ग विभागीय पुष्टि / प्रोन्नति समिति (पुष्टि / प्रोन्नति / परीवीक्षा से हटाने के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) - अध्यक्ष उप निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (युद्धपोत परियोजना) - सदस्य - I उप निदेशक (कार्मिक), गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) - सदस्य - II अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से सहबद्ध सदस्य अपेक्षानुसार 	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 2360/डेव.प्रिंट/डी क्यू ए (एन)/79/डी(क्यू ए)/2018]

सुभाष चन्द्र, उप सचिव

(Department of Defence Production)

[DIRECTORATE OF QUALITY ASSURANCE (NAVAL)]

New Delhi, the 12th February, 2018

S.R.O. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Directorate of Quality Assurance (Naval), Group-‘C’ posts (Developer Printer, Photographer Grade-I and II, Ferro Printer and Copy Cat Operator), Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Developer Printer, Photographer Grade-II in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Directorate of Quality Assurance (Naval) namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Directorate of Quality Assurance (Naval) (Developer Printer and Photographer Grade-II) Group ‘C’ Posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and the level in the pay matrix.**—The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the above said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect the reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other Special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of the posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Developer Printer	02* (2018) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 Rs. (25500-81,100)	Non-Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or Deputation or Absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	<p>Promotion: Photographer Grade-II with eight years regular service in the grade</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation/removal from probation) consisting of:- 1. Director, Directorate of Quality Assurance (Naval) – Chairman 2. Dy. Director, Directorate of Quality Assurance (Warship Project) – Member-I 3. Dy. Director (Pers), Directorate of Quality Assurance (Naval) – Member-II 4. Co-opted Member from Scheduled Caste/Scheduled Tribe Category, as per requirement.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Photographer Grade-II	03* (2018) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 Rs. (19900-63200)	Not applicable

(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servant upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note: 1. The crucial date for determining age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Matriculation from a recognised Board or equivalent with two years experience in photography	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Two Years	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation/ removal from probation) consisting of:- 1. Director, Directorate of Quality Assurance (Naval) – Chairman 2. Dy Director, Directorate of Quality Assurance (Warship Project) – Member-I 3. Dy Director (Pers), Directorate of Quality Assurance (Naval) – Member-II 4. Co-opted Member from Scheduled Caste/Scheduled Tribe Category, as per requirement.	Not applicable.

[F. No. 2360/Dev Print/DQA(N)/79/D(QA)/2018]
SUBHASH CHANDRA, Dy. Secy.